



CHL LIMITED

New Friends Colony, New Delhi 110 025
T +91 11 2683 5070, 4780 8080
F +91 11 2683 7758, 4780 8081

CHL/SECT/BSE/2024

14th August, 2024

The Asstt. General Manager
Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor, P J Towers
Dalal Street
Mumbai 400 001

SCRIP CODE 532992

Sub: Newspaper Cuttings of the Extract of Unaudited Financial Results as on 30th June, 2024

Dear Sir,

Please find enclosed herewith Photocopy of the Newspaper Cutting of the Extract of the Unaudited Financial Results for the First Quarter ended on 30th June, 2024 published in the Business Standard (English/Hindi) on 14.08.2024.

Yours Faithfully,
For CHL Limited

Dinesh Kumar Maurya
Company Secretary
M.No. 35880



Encl: As below

The Suryaa New Delhi
(A Unit of CHL Ltd.)
ISO 22000 : 2018 CERTIFIED
www.thesuryaa.com
Email : chl@chl.co.in
CIN : L55101DL1979PLC009498



POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas,
The Authorized Officer of **EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED ("EARC")** (CIN:U67100MH2007PLC174759), under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) ("said Act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("said Rules") issued a demand notice dated **18.12.2021** calling upon the borrower(s), the guarantor(s) and the mortgagor(s) **PRADEEP KUMAR SHARMA AND POONAM SHARMA** against LAN No. **HHLVAS00352332** to repay the amount mentioned in the said notice being a sum of **Rs. 21,82,666.25 (Rupees Twenty One Lakhs Eighty Two Thousand Six Hundred Sixty Six and Paise Twenty Five Only)** as on **29.11.2021** in respect of the said Facility with further interest thereon and penal interest from **30.11.2021** till payment/realisation, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

And whereas subsequently, **Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited as Trustee of EARC Trust - SC 439** has vide Assignment Agreement dated **02.11.2023** assigned all its rights, title, interest and benefits in respect of the debts due and payable by the borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) arising out of the facilities advanced by **IHFL (now known as SAMMAAN CAPITAL LTD)** to borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) alongwith the underlying securities to **Asset Reconstruction Company (India) Limited acting in its capacity as Trustee of Arcil-CPS-IV, Trust ("Arcil")** for the benefit of the holders of Security Receipts. Therefore, in view of the said assignment, Arcil now stands substituted in the place of **Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited** and **Arcil** shall be entitled to institute/continue all and any proceedings against the borrower(s)/guarantor(s)/mortgagor(s) and to enforce the rights and benefits under the financial documents including the enforcement of security interest executed and created by the borrower/ guarantor(s)/mortgagor(s) for the said facilities advanced by them.

The borrower/guarantors/mortgagor(s) having failed to repay the said amounts to **Arcil**, notice is hereby given to the borrower/guarantors/mortgagor(s) in particular and the public in general that the undersigned being the Authorized Officer of **Arcil** has taken **Symbolic Possession** of the secured assets described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub-Section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on **09.08.2024**.

The borrower/guarantor(s)/mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the below mentioned secured assets and any dealings with the secured assets will be subject to the charge of **Arcil** for a sum of **Rs.30,33,197.58 (Rupees Thirty Lakhs Thirty Three Thousand One Hundred Ninety Seven and Paise Fifty Eight Only)** as on **27.06.2024** in respect of the said Facility with further interest at contractual rate from **28.06.2024** till payment / realisation together with all incidental costs, charges and expenses incurred.

The borrowers'/guarantors'/mortgagors' attention is invited to the provisions of the Sub-Section (8) of Section 13 of the said Act, in respect of time available to redeem the below mentioned secured assets.

DESCRIPTION OF SECURED ASSETS

Property owned by: **PRADEEP KUMAR SHARMA**
FLAT NO. STC-402 HAVING SUPER AREA OF 799 SQ. FT., 4TH FLOOR, TOWER-VC, AJNARA PANORAMA, PLOT NO. GH-04, SECTOR-22A, YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH - 201303.
Sd/-
Authorised Officer
Date : 09.08.2024 Asset Reconstruction Company (India) Limited
Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR (Trustee of Arcil-CPS-IV, Trust)

पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank
ZONAL SASTRA-JAIPUR
PLOT NO. 2, NEHRU PLACE, NEAR LAL KO THI SAJBI MANDI, JAIPUR RAJASTHAN PIN 302015

In terms of RBI Master Circular No. DBR, No. CID.BC.22/20.16.003/15-16 dated July 01, 2015, a meeting of the Committee for Review of Willful Defaulters of the Bank was held on 15.04.2024. The Review Committee concluded that events of willful default in the M/s Satiwki Proteins Pvt. Ltd. account(s) had occurred and declared borrower and its following directors/guarantors as willful defaulters:
1. Shri Virendra Kumar Agarwal (Director/ Guarantor) 2. Shri Vikas Agarwal (Director/ Guarantor) 3. Shri Narottam Lal Agarwal (Director/ Guarantor) 4. Smt. Sunita Devi Agarwal (Director/ Guarantor) 5. Smt. Puspaa Agarwal (Guarantor) 6. Smt. Rakhi Agarwal (Guarantor) 7. Smt. Santosh Devi (Guarantor)
Accordingly, the Review Committee had issued order dated 30.04.2024. The said orders were sent through registered post at the address available with the Bank. However, the said orders returned undelivered. Hence, all directors/guarantors of M/s Satiwki Proteins Pvt. Ltd. hereby informed to collect Review Committee order dated 30.04.2024 from Zonal Sastra Centre Jaipur, Punjab National Bank situated at Plot No. 2, Nehru Place, Near Lal Kohli Sabji Mandi, Jaipur Rajasthan Pin 302015.
Zonal SASTRA Jaipur

यूनियन बैंक Union Bank of India
Asset Recovery Branch, Jaipur at 101-110, First Floor, Anukampa Tower, Church Road, Jaipur-302001 (Raj)

(Rule - 8 (1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)
Whereas, The undersigned being the authorised officer of **Union Bank of India, Asset Recovery Branch, Jaipur at 101-110, First Floor, Anukampa Tower, Church Road, Jaipur-302001 (Raj)** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated **10.01.2024** calling upon the borrower **1 (a) Mr. Nirmal Doraya S/o Shri Virendra Kumar Doraya Kumawat (Applicant), 1 (b) Mrs. Sarita Devi Kumawat W/o Mr. Virendra Kumar Kumawat (Co-ApPLICANT), 1 (c) Mr. Hemant Doraya S/o Shri Virendra Kumar Doraya/Kumawat (Co-ApPLICANT), 1 (d) Mrs. Manisha Kumawat W/o Mr. Nirmal Doraya (Co-ApPLICANT), 1 (e) Mr. Virendra Kumar Kumawat (Co-ApPLICANT), 1 (f) Mrs. Sweta Kumawat W/o Mr. Hemant Doraya (Co-Obligant)** to repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 20,80,202.46 (In words Rupees Twenty Eight Lakhs Twenty Thousand Eight Hundred Two and Paise Forty Six Only)** within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **symbolic possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on **12th day of August Year 2024**. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank of India for an amount **Rs. 20,80,202.46 (Thirty Eight Lakhs Twenty Thousand Eight Hundred Two and Paise Forty Six Only)** with further interest and charges thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Leasehold Property being the Residential House Plot No.445, Laxmi Colony, Sangar, Jaipur, Rajasthan-302029 in the name of Mr. Virendra Kumar Kumawat and Mrs. Sarita Devi Kumawat measuring 259.51 Sq. Meters and bounded as under: On the North by: House of Tulsi Das, On the South by: House of Madan Doraya, On the East by: House of Khanji, On the West by: Road
Sd/-
Authorised Officer
Date: 12.08.2024 Place: Jaipur Union Bank of India

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Leasehold Property being the Residential House Plot No.445, Laxmi Colony, Sangar, Jaipur, Rajasthan-302029 in the name of Mr. Virendra Kumar Kumawat and Mrs. Sarita Devi Kumawat measuring 259.51 Sq. Meters and bounded as under: On the North by: House of Tulsi Das, On the South by: House of Madan Doraya, On the East by: House of Khanji, On the West by: Road
Sd/-
Authorised Officer
Date: 12.08.2024 Place: Jaipur Union Bank of India

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Leasehold Property being the Residential House Plot No.445, Laxmi Colony, Sangar, Jaipur, Rajasthan-302029 in the name of Mr. Virendra Kumar Kumawat and Mrs. Sarita Devi Kumawat measuring 259.51 Sq. Meters and bounded as under: On the North by: House of Tulsi Das, On the South by: House of Madan Doraya, On the East by: House of Khanji, On the West by: Road
Sd/-
Authorised Officer
Date: 12.08.2024 Place: Jaipur Union Bank of India

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Whereas,
The undersigned being the Authorized Officer of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** (formerly known as **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED**) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **17.01.2024** calling upon the Borrower(s) **SIVAJI K CHATHU AND BEENA C K** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.17,00,246.69 (Rupees Seventeen Lakhs Two Hundred Forty Six And Paise Sixty Nine Only)** against Loan Account No. **HHLN000240833** as on **11.01.2024** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.
The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **09.08.2024**.
The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **SAMMAAN CAPITAL LIMITED (formerly known as INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)** for an amount of **Rs.17,00,246.69 (Rupees Seventeen Lakhs Two Hundred Forty Six And Paise Sixty Nine Only)** as on **11.01.2024** and interest thereon.
The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

UNIT NO. 0806, HAVING SUPER AREA OF 890 SQ. FT., ON THE 8TH FLOOR, BLOCK-12, IN PROJECT KNOWN AS "ECO VILLAGE-4", SITUATED AT PLOT NO.GH-01, SECTOR-16B, GREATER NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR-201303, UTTAR PRADESH, WITH ONE COVERED CAR PARKING.
Sd/-
Date : 09.08.2024 Authorised Officer
Place: GAUTAM BUDDHA NAGAR SAMMAAN CAPITAL LIMITED (FORMERLY KNOWN AS INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

CFM ASSET RECONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Registered Office: Block No. A/1003, West Gate, Near Ymca Club, Sur No. 835/1-3, S. G. Highway, Makara, Ahmedabad-380051 Gujarat.
Corporate Office: 1st Floor, Wakefield House, Spinn Road, Ballard Estate, Mumbai-400038
Email: chetan.rajpurohit@cfm.arc.in
Contact: 079-86118554 & 079-86118555 Mobile: 9892816471
CIN: U67100GJ2015PC083994

APPENDIX-IV A (See proviso to rule 8 (6))
SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES
E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8(6) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002.

CFM Asset Reconstruction Private Limited ("CFM-ARC") (acting in its capacity as Trustee of **CFM-ARC Trust - 117**) have acquired the entire outstanding debt along with underlying securities of **Kamlesh Kumar and Ors. (Borrower & Co-Borrowers)** under section 5 of the said Act vide Registered Assignment Agreement dated 02.05.2023 and by virtue of the said Assignment Agreement, Nido Home Finance Limited (Formerly Known as Edelweiss Housing Finance Limited) assigned all the rights, title and interests along with underlying securities and guarantees in favor of **CFM-ARC**.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Guarantors that the below described immovable properties (Secured Assets) mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of **CFM-ARC on 02.07.2024** will be sold on "As is where is basis", "As is what is basis", and "Whatever there is basis", and "No recourse basis" on **18th September 2024** for recovery of **Rs. 1,55,44,143.90/- (Rupees One Crore Fifty Five Lakh Forty Four Thousand One Hundred Forty Three and Ninety Paise Only) & 87,75,435.78 (Rupees Eighty Seven Lakh Seventy Five Thousand Four Hundred Thirty Five and Seventy Eight Paise Only)** due and payable as on 9.03.2023 together with further interest from 10.03.2023 & expenses thereon minus recovery, if any due to the secured creditors from (1) **Mr. Kamlesh Kumar (Borrower), 2) Nitu Kumar, (Co-Borrower/ Mortgagor) Winsol Educare Private Limited, Winsol Educare Private Limited, Winsol International Studies Private Limited (Co-Borrowers)**.

DESCRIPTION OF SECURED PROPERTY:
All That Part And Parcel Of The Property Entire Third Floor With Roof Terrace Right Upto Sky, With Common Rights Of Star Case, Main Gate And Passage, With All Other Common Facilities & With The Proportionate Share Of The Land Underneath, Floor / Portion Of Built Up Freehold Property No. A-337, Land Measuring 400.00 Sq Yds, Situated At Layout Plan Of The Janta CHS Ltd, Known As Meera Bagh, Paschim Vihar Delhi 110087 owned by Mrs. Nitu Kmar, Bounded- North: Plot No 336, South: Plot No 338, West Plot No 320, East: 200 Ft Wide Outer Ring Road

SECURED DEBT: **Rs.1,55,44,143.90/- (Rupees One Crore Fifty Five Lakh Forty Four Thousand One Hundred Forty Three and Ninety Paise Only) & 87,75,435.78 (Rupees Eighty Seven Lakh Seventy Five Thousand Four Hundred Thirty Five and Seventy Eight Paise Only)** due and payable as on 9.03.2023 together with further interest from 10.03.2023

RESERVE PRICE (RP): **Rs.3,15,00,000/- (Rupees Three Crore Fifteen Lakhs Only)**

EMD: **Rs.31,50,000/- (Rupees Thirty One Lakhs Fifty Thousand Only)**

TIME DATE-PLACE: E-Auction/Bidding through website (<https://www.bankauctions.com>)
Date:- 18.09.2024 - Time: 11:00 AM to 12:00 PM

INSPECTION: With prior consultation of Authorised Officer

LAST DATE AND TIME FOR BID SUBMISSION: On or before 5:00 PM on 17.09.2024

CONTACT: Dr. Chetan Rajpurohit - 9892816471 Email: chetan.rajpurohit@cfm.arc.in

Encumbrances if any: Not known to the secured creditor
For detailed terms & conditions of the sale through e-auction, please refer to the link provided in Secured Creditors website i.e. <https://www.cfm.arc.in> before submitting bids for taking part in the e-auction.
Bidders may also visit the website <https://www.bankauctions.com> or contact service provider **M/s. C1 India Private Limited, Bidder Support Nos.: 0124-4302020 / 21 22, +91 7291981124 / 1125 / 1126; email: support@bankauctions.com, Mr. Bhavik Pandya, Contact No. +91 886682937; Maharashtra@tinda.com**
This notice of 30 days is being given to all of you in compliance of Rule 8, Sub Rule 6 of SARFAESI Rules Under the SARFAESI Act 2002, informing all the Borrowers, all the Guarantors and all the Mortgagors about holding of auction/sale of the aforementioned Secured Properties / Secured Assets at the aforementioned date and time, with the advice to redeem the secured Properties / Secured Assets. If so desired, by them, by paying the outstanding dues as mentioned herein above along with further interest, other costs and expenses thereon due and payable prior to the scheduled auction. In case of default in payment, any or all of the Secured Properties/Secured Assets shall at the discretion of the Authorized Officer/Secured Creditor be sold through any of the modes as prescribed under Rule 8(5) of Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.
Date: 14.08.2024 Sd/- Authorised Officer
Place: Delhi CFM Asset Reconstruction Pvt. Ltd.
Acting as trustee of CFMARC Trust - 117

Canara Bank
PRATAPGARH BRANCH, NEAR PINGARA TAL, HIGHER SECONDARY SCHOOL ROAD, PRATAPGARH, RAJASTHAN 312605, MOB. NO.9717957302

POSSESSION NOTICE (Section 13(4)) (For Immovable Property)
Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act 54 of 2002) (hereinafter referred to as "the act") and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, had issued a Demand Notice dated **29.05.2024** calling upon the borrower **Jaya Keer & Ram Niwas Keer (BORROWER)** to repay the amount mentioned in the notice, being **Rs.19,48,891.45 (Rupees Nineteen Lakhs Forty Eight Thousand Six Hundred Ninety One and Paise Forty Five Only)** within 60 days from the date of receipt of the said notice.
The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under section 13 (4) of the said Act, read with Rule 8 & 9 of the said Rule on **13th day of August of the year 2024**.
The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Canara Bank for an amount of **Rs.19,48,891.45 (Rupees Nineteen Lakhs forty Eight Thousand Six Hundred Ninety One and Paise Forty Five Only)** + interest and other charges thereon.
The borrower's attention is invited to the provisions of Section 13 (8) of the act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel Residential property of West Side of Plot No. E-15, Radhey Krishna Nagar, Rughnathpura, Teh. & Dist. Pratapgarh-312605, Rajasthan. Area: 1090 SQ.FT.
Bounded By: East: Remaining Part of Plot No. E-15, West: Plot No. E-14, North: Others Agri Land, South: Colony Road 30 Feet
Date: 13.08.2024 Place: Pratapgarh Authorised Officer, Canara Bank

DHANLAXMI COTEX LIMITED
CIN: L51100MH1987PLC042280
Regd. Off: 285, 2nd Floor, Jhwar House, Princess Street, Mumbai - 400002
PHONE: 022-4976 4268 | Website: www.dcl.net.in
E-mail: dcolex1987@gmail.com / accounts@dcl.net.in

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 (Rs. In Lakhs except EPS)

Particulars	Quarter ended 30th June 2024	Quarter ended 31st March 2024	Corresponding Quarter ended 30th June 2023	Year ended on 31st March 2024
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations & other revenue	516.10	383.84	691.70	2,871.82
Net Profit / (Loss) (before tax and/or extraordinary items)	159.49	-40.11	152.39	344.24
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Extraordinary items)	159.49	-40.11	152.39	344.24
Net Profit / (Loss) after tax (after extraordinary items)	133.12	-40.16	126.92	288.54
Total Comprehensive income for the period (comprising profit/loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	484.22	-112.95	703.14	1524.80
Equity Share Capital	487.14	487.14	487.14	487.14
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	667.94
Earnings Per Share (of 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	2.73	-0.82	2.61	5.92
Diluted:	2.73	-0.82	2.61	5.92

Note:
1. The Un-audited Financial results for the quarter ended 30th June 2024 were reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 13th August 2024. The company has adopted Indian Accounting Standards (IND-AS) from 1st April 2017. The above financial results have been prepared following the IND-AS recognition and measurement principles.
2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (IND-AS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable beginning from April, 2017.
3. The prior period's figures have been regrouped or reclassified wherever necessary to conform to current period's classification.
For Dhanelaxmi Cotex Limited
Sd/-
Mahesh Jhwar (Managing Director)
DIN: 00002908
Place : Mumbai.
Date : 14.08.2024

CHL LIMITED
Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025
Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: chl@chl.co.in
CIN No: L55101DL1979PLC009498

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30th JUNE 2024
(INR in Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 30.06.2023	Year Ended 31.03.2024	Quarter Ended 30.06.2024	Quarter Ended 30.06.2023	Year Ended 31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,168.00	2,104.61	9,336.16	3,282.95	3,289.30	15,401.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	522.84	568.22	2,841.01	-201.26	25.57	1,684.95
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	522.84	568.22	2,841.01	-201.26	25.57	1,684.95
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	390.71	425.21	2,107.63	-333.39	(117.43)	951.56
5	Total comprehensive income for the period (comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense))	390.71	425.21	2,107.63	(757.25)	(296.71)	622.20
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	-	-	-	-	-	-
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	0.71	0.78	3.84	(1.38)	(0.54)	1.14

** Reserves for standalone as on 31.03.2024, is Rs. 14,304.34 Lacs and for consolidated is Rs. (12,561.08) Lacs

NOTES:
1) The above is an extract of the detailed format of quarter ended 30.06.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter ended 30.06.2024 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chl.co.in).
2) The results for the quarter ended 30.06.2024 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
3) The above results can be viewed on the website of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).
By Order of the Board
CHL LIMITED
Sd/-
(Luv Malhotra)
Managing Director
DIN 0030477

Place : New Delhi
Date : 13th August, 2024

Aadhar Housing Finance Ltd.
Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069
Laxmi Nagar Branch : 2nd floor, WA-122, Mother Dairy Road, Near Vishal Medicos, Shakarpur, Opp Balaji Mandir, Delhi-110092

E-AUCTION - SALE NOTICE
E-Auction Sale Notice for Sale of immovable Properties under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" with no known encumbrances Particulars of which are given below:-

S. N.	Borrower(s) / Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property	Reserve Price (RP)	Earnest Money Deposit (EMD) (10% of RP)	Nature of possession
1	Loan Code No. 187000000004 / Laxmi Nagar Branch, Tunni Devi (Borrower), Abhay Kumar Singh (Co-Borrower)	10-04-2024 & ₹ 9,11,810/-	All that part & parcel of property bearing, Plot No. 24 Khasra No 40 Darshan Vihar Village Roopwas Dadrri Gautambudh Nagar Uttar Pradesh 203207. Boundaries: East: Plot No-25, West: Road 18 Ft Wide, North: Road 15 Ft Wide, South: Plot No-23	Rs. 7,69,500/-	Rs. 76,950/-	Physical

1. Last Date of Submission of DD of Earnest Money Deposit along with KYC, Tender Form and accepted Terms and conditions (Tender Documents) is **28-08-2024 within 5:00 PM** at the Branch Office address mentioned herein above or uploaded on <https://bankauctions.com>. Tenders documents received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD.
2. Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is **29-08-2024 on https://bankauctions.com at 3:00 PM to 4:00 PM**.
3. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis" and "Whatever Is There Is Basis".
4. The Demand Draft Should be made in favor of 'Aadhar Housing Finance Limited' Only.
5. Auction/bidding shall be only through "Online Electronic Bidding" through the website <https://bankauctions.com>. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings.
6. The intending bidders should register their names at portal M/s C 1 INDIA PVT LTD through the link <https://bankauctions.com/registration/signup>, and get their User ID and password free of cost. Prospective bidder may avail online training on E-auction from the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD through the website <https://bankauctions.com>
7. For further details contact Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited, **Vikas Nain, (Contact No. 9802000309)** OR the service provider M/s C 1 INDIA PVT LTD, Mr. Prabhakaran, Mobile No: +91-74182-81709, E-mail: tn@ciindia.com & support@bankauctions.com, Phone No. +917291981124 /25 /26 As on date, there is no order restraining and/or court injunction AHFL/the authorized Officer of AHFL from selling, alienating and/or disposing of the above immovable properties / secured assets.
8. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aadhar Housing Finance Limited (AHFL), secured creditor's website i.e. www.aadharhousing.com.
9. The Bid incremental amount for auction is **Rs.10,000/-**.
Place : Uttar Pradesh
Date : 14-08-2024
(Authorised Officer)
For Aadhar Housing Finance Limited

JAY BHARAT MARUTI LIMITED
CIN: L29130DL1987PLC027342
Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110 019.
Ph.: 011-26427104; Fax: 011- 26427100
E-mail: jbm.investor@jbmgroup.com; Website: www.jbmgroup.com



NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFENCING/OTHER AUDIO VISUAL MEANS/BOOK CLOSURE AND RECORD DATE

1. The 37th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on **Thursday, September 12, 2024 at 12:15 p.m. (IST)** through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made there under read with all applicable circulars issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) and Ministry of Corporate Affairs (MCA) from time to time, to transact the businesses as set forth in the Notice of Annual General Meeting. The Company has appointed M/s KFin Technologies Private Limited (KFINTech) for providing VC/OAVM facility for the AGM.
2. In compliance with the above circulars, the Notice of the Annual General Meeting and Annual Report 2023-24 will be sent through electronic mode to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent Limited and Depository Participants. The Notice of Annual General Meeting and Annual Report for FY 2023-24 will also be made available on Company's website at www.jbmgroup.com websites of stock exchanges at www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively and on the website of KFINTech at www.kfintech.com
3. Members holding shares in physical form and who have not registered their email address may contact KFINTech at evoting@kfintech.com for

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड				
पंजीकृत कार्यालय: 4830/24, प्रहलाद स्ट्रीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002				
सीआईएन: L21012DL1972PLC279773				
वेबसाइट: www.skpmil.com, ई-मेल: info@skpmil.com फोन: 91-11-46283200				
30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार (₹ लाख में)				
क्र. सं.	विवरण	30.06.2024 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (अलेखापरीक्षित)	30.06.2023 को समाप्त तिमाही (अलेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	3,624.80	14,543.57	4,630.83
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशेष और/या असाधारण मदों से पूर्व)	(19.79)	65.36	202.09
3	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(19.79)	64.38	202.09
4	कर पश्चात् अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और/या असाधारण मदों के पश्चात्)	(23.02)	38.04	137.84
5	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात्) शामिल]	(15.38)	38.20	137.84
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक)	1,352.17	1,352.17	1,352.17
7	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनापत्र में दर्शाए अनुसार	-	1,917.62	-
8	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (अंकित मूल्य ₹10/- प्रत्येक) (वार्शिकीकृत नहीं) (₹ में) (₹ डायल्यूटेड (₹ में))	(0.17)	0.28	1.02
		(0.17)	0.28	1.02

नोट:

- ये परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली, 2015 (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।
- ऊपर सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों में पेश किए गए 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध है।

श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उन्हीं की ओर से
नरेश कुमार पसारी प्रबंध निदेशक
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 13 अगस्त, 2024
सीआईएन - 00101426

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड						
कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015						
शाखा कार्यालय: कार्यालय नं. 286, दूसरी मंजिल, पकिट-1, सेक्टर-25, रोहिणी, नई दिल्ली-110085						
ई-मेल: action@hindujahousingfinance.com						
एलएनए - परमोद चंद, मोबाइल नंबर - 9990338759 आरआरएम - सुनील वर्मा, मोबाइल नंबर - 8397972200						
आरआरएम - पवन कुमार पांडे, मोबाइल नंबर - 8010562716						
पंक्ति- IV-ए [विध 8 (4) के प्रावधान का संदर्भ लें] अचल संपत्ति की विक्री के लिए विक्री सूचना						
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निम्न, 2002 (जिसे आगे 'निम्न' कहा जाएगा) के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पंढित वित्तीय अतिरिक्त के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल संपत्तियों को विक्री के लिए ई-नीलामी विक्री सूचना। आम जनता और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति लेनदार के पास निम्नलिखित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका क्रमांक हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय 167-169, द्वितीय तल, पकिट-1, सेक्टर-25, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में है, कर्जदारों और गारंटरों से प्रतिभूति लेनदार को देय राशि को वसूली के लिए नए उल्लिखित तिथियों पर 'जैसा है जहाँ है', 'जो है वही है' और 'जो कुछ भी है वही है' के अधार पर देना जाएगा। विक्री वेबसाइट: www.bankauctions.com पर उपलब्ध है-नीलामी मंच के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।						
क्र. सं.	विक्री सूचना तथा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) के नाम	1x2 के तहत मंच सूचना की तिथि तथा मंच तिथि 26/06/2024 तक कुल बकाया	अचल संपत्ति/प्रतिभूति आसित का विवरण	विक्री की तिथि तथा प्रकार	आरंभित मूल्य (₹ में)	ई-नीलामी की तिथि/समय
1.	विक्री सूचना नं. DL/GR/SRJP/A000001137 तथा CO/CPC/POF/A00001445 1. श्री दीपक मिश्रा (कर्जदार) 2. श्रीमती सोम मिश्रा (सह-कर्जदार)	27.01.2024 तथा ₹. 45,35,979/- (रुपये पैतृकीय लाभ वित्तिय हस्तांतरण से उतारी गई राशि) तिथि 19.01.2024 तक ₹. 47,86,383/- (रुपये पैतृकीय लाभ वित्तिय हस्तांतरण से उतारी गई राशि)	संपत्ति क्रमांक 174 और 175 का समग्र भाग, भूखण्ड, विना छत/ढाँचा/अधिकार के, भूमि क्षेत्र 28 वर्ग मीटर प्रत्येक, पकिट-26, सेक्टर-24, रोहिणी अवासीय योजना, दिल्ली-110085 के अंतर्गत स्थित है।	13/04/2024 बौद्धिक कक्षा	₹. 43,01,100/- ₹. 4,30,110/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 1 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDLGRNSRJA137 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						
2.	विक्री सूचना नं. DL/MT/G/MING/A000001151 तथा CO/CPC/POF/A00003455 1. श्री इंदवील भट्टाचार्य (कर्जदार) 2. श्रीमती चंद्राणी भट्टाचार्य (सह-कर्जदार)	11.07.2023 तथा ₹. 26,67,683/- (रुपये छत्तीस गज सड़क हस्तांतरण से उतारी गई राशि) तिथि 11.07.2023 तक ₹. 29,62,044/- (रुपये उनीचल लाभ हस्तांतरण से उतारी गई राशि)	संपत्ति नंबर एच-2/81ए का समग्र भाग, खण्ड नंबर 79/23, उत्तरी भूखण्ड, क्षेत्रफल 60 वर्ग गज, विना छत और टैक्स के अधिकार के, महावीर एक्सप्रेस, नई दिल्ली-110045 का आबदी मंच, पल्लव गांव के क्षेत्र में स्थित है, जिसकी सीमाएँ हैं: पूर्व: सड़क पश्चिम: अन्य संपत्ति उत्तर: अन्य संपत्ति दक्षिण: नाला	17/05/2024 बौद्धिक कक्षा	₹. 20,82,600/- ₹. 2,08,260/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 2 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDLMTGTINGA151 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						
3.	विक्री सूचना नं. DL/DEL/DLHI/A000001155 तथा CO/CPC/POF/A00002712 1. श्री मोहम्मद रिश्क (कर्जदार) 2. श्रीमती राधा देवी (सह-कर्जदार) 3. श्री युगलजी राम शर्मा (सह-कर्जदार)	22.09.2023 तथा ₹. 40,38,580/- (रुपये चालीस लाख अर्द्धशत हस्तांतरण से उतारी गई राशि) तिथि 25.08.2023 तक ₹. 43,76,447/- (रुपये चालीस लाख हस्तांतरण से उतारी गई राशि)	संपत्ति नंबर बी-41ए का समग्र भाग, इन के अधिकार सहित पूरी तीसरी मंजिल, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, खण्ड नंबर 358 का हिस्सा, विक्टर पार्क के नाम से जानी जाने वाली हिंदुपुर कॉलोनी गांव में स्थित, ब्लॉक-बी, उमम नगर, नई दिल्ली-110059, सीमाएँ: पूर्व: गली पश्चिम: सड़क उत्तर: संपत्ति नंबर बी-41 दक्षिण: संपत्ति नंबर 42	16/05/2024 बौद्धिक कक्षा	₹. 34,74,000/- ₹. 3,47,000/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 3 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDLDEL/DL/HA1155 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						
4.	विक्री सूचना नं. HR/NCI/CURH/A00000659 1. श्री मोहम्मद फारान खान (कर्जदार) 2. श्रीमती शर्मना शक (सह-कर्जदार)	11.07.2023 तथा ₹. 23,54,434/- (रुपये तेरस लाख चौवन हज़ार चार सौ चौबीस मात्र) तिथि 11.07.2023 तक ₹. 25,54,545/- (रुपये पच्चीस लाख चौवन हज़ार चार सौ पैतृकीय मात्र)	खण्ड संख्या 82/7 में से बी-14/1 नंबर की संपत्ति का समग्र भाग, पहली मंजिल, विना छत/ढाँचा/अधिकार के, क्षेत्रफल 40 वर्ग गज मात्र 33.444 वर्ग मीटर, पल्लव गांव के क्षेत्र में स्थित, कॉलोनी महावीर एक्सप्रेस, नई दिल्ली-110045, सीमाएँ: पूर्व: सड़क 10 फीट पश्चिम: अन्य संपत्ति उत्तर: अन्य संपत्ति दक्षिण: अन्य संपत्ति	17/05/2024 बौद्धिक कक्षा	₹. 17,27,100/- ₹. 1,22,710/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 4 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDHRNCCHGRH659 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						
5.	विक्री सूचना नं. DL/DEL/DW/D/A00000060 तथा DL/DEL/DW/D/A00000501 1. श्री प्रदीप मेठी (कर्जदार) 2. श्रीमती रंजु मेठी (सह-कर्जदार)	17.08.2023 तथा ₹. 9,71,339/- (रुपये नौ लाख इकहतर हज़ार तीन सौ उन्नीस मात्र) तिथि 12.08.2021 तक ₹. 9,84,586/- (रुपये नौ लाख चौबीस हज़ार पाँच सौ पचासी मात्र)	संपत्ति नंबर आरओड-58-डी का समग्र भाग, तीसरी मंजिल का हिस्सा हिस्सा, गली नंबर 8, कुल 65 वर्ग गज भूमि में से 32 वर्ग गज क्षेत्रफल, जिसे खण्ड नंबर 498 शामिल है, तुलसिकावद एस्टेट, दिल्ली-110018 में स्थित है। पूर्व: सामने की तरफ का बचा हुआ हिस्सा पश्चिम: गली की चौड़ाई 8 फीट उत्तर: अन्य संपत्ति दक्षिण: अन्य संपत्ति	16/03/2023 बौद्धिक कक्षा	₹. 7,92,900/- ₹. 79,290/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 5 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDLDEL/DW/D/A060 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						
6.	विक्री सूचना नं. DL/DEL/DLHI/A00000401 तथा DL/DEL/DLHI/A000001093 तथा CO/CPC/POF/A00002077 1. श्री सचिन ताल (कर्जदार) 2. श्रीमती संदीपा सिंह (सह-कर्जदार)	28.01.2023 तथा ₹. 43,78,991/- (रुपये तेरस लाख अठ्ठतर हज़ार नौ सौ इक्कीस मात्र) तिथि 12.08.2021 तक ₹. 49,63,671/- (रुपये उन्नीस लाख नौसठ हज़ार छह सौ इकहतर मात्र)	छा/देस अधिकारों के बिना केवल प्रथम तल का पूरा भाग, क्षेत्रफल 69.5 वर्ग गज भूमि 58.102 वर्ग मीटर, उत्तरी तरफ निर्मित संपत्ति का हिस्सा जिसका नारायणिका क्रमांक 4/102 है, खण्ड क्रमांक 163 में शामिल, पुराने पैरेडियस नगर में स्थित, गांव धीरपुर के क्षेत्र में, जंमना में निरंकरा कॉलोनी, दिल्ली-110009	24/08/2023 बौद्धिक कक्षा	₹. 32,86,050/- ₹. 3,28,605/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 6 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDLDEL/DL/HA401 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						
7.	विक्री सूचना नं. DL/DEL/DLHI/A00000401 तथा DL/DEL/DLHI/A000001093 तथा CO/CPC/POF/A00002077 1. श्री सचिन ताल (कर्जदार) 2. श्रीमती संदीपा सिंह (सह-कर्जदार)	28.01.2023 तथा ₹. 43,78,991/- (रुपये तेरस लाख अठ्ठतर हज़ार नौ सौ इक्कीस मात्र) तिथि 12.08.2021 तक ₹. 49,63,671/- (रुपये उन्नीस लाख नौसठ हज़ार छह सौ इकहतर मात्र)	छा/देस अधिकारों के बिना केवल प्रथम तल का पूरा भाग, क्षेत्रफल 69.5 वर्ग गज भूमि 58.102 वर्ग मीटर, उत्तरी तरफ निर्मित संपत्ति का हिस्सा जिसका नारायणिका क्रमांक 4/102 है, खण्ड क्रमांक 163 में शामिल, पुराने पैरेडियस नगर में स्थित, गांव धीरपुर के क्षेत्र में, जंमना में निरंकरा कॉलोनी, दिल्ली-110009	24/08/2023 बौद्धिक कक्षा	₹. 32,86,050/- ₹. 3,28,605/- ₹. 5,000/-	30 अगस्त, 2024 1100 बजे-1300 बजे
भुगतान का तरीका क्रमांक 7 के लिए, सभी भुगतान हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या पंढरपट्टी/आरटीजीएस/आईएमपीएस के माध्यम से एचडीएमसी बैंक खाता संख्या HHFLTDLDEL/DL/HA401 आरईएमएससी कोड HDFC0004989 में किया जाएगा।						

CHL LIMITED							
Regd. Office: The Surya, New Friends Colony, New Delhi 110025							
Tel.: 91-11-26835070, 47808080, Fax: 26836288, E-mail: chl@chl.co.in							
CIN No: L55101DL1979PLC009498							
EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30 th JUNE 2024							
(INR in Lacs)							
Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024	30.06.2024	30.06.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,168.00	2,104.61	9,336.16	3,282.95	3,289.30	15,401.06
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	522.84	568.22	2,841.01	-201.26	25.57	1,684.95
3	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	522.84	568.22	2,841.01	-201.26	25.57	1,684.95
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	390.71	425.21	2,107.63	-333.39	(117.43)	951.56
5	Total comprehensive income for the period [comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense)]	390.71	425.21	2,107.63	(757.25)	(296.71)	622.20
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	-	-	-	-	-	-
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	0.71	0.78	3.84	(1.38)	(0.54)	1.14

**Reserves for standalone as on 31.03.2024, is Rs. 14,304.34 Lacs and for consolidated is Rs. (12,581.08) Lacs

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of quarter ended 30.06.2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter ended 30.06.2024 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chl.co.in).
- The results for the quarter ended 30.06.2024 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
- The above results can be viewed on the website of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).

By Order of the Board
CHL LIMITED
Sd/-
(Luv Malhotra)
Managing Director
DIN 00030477

Place : New Delhi
Date : 13th August, 2024

टीएआरसी लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय मंजिल, सी-3, सुबुब इन्स्ट्रुमेंटल एरिया, कल्याण सराय, नई दिल्ली -110016					
दूरभाष: 011-41244300, ई-मेल: tarc@tarc.in , वेबसाइट: www.tarc.in					
जून 30, 2024 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित संगठित उद्घटित वित्तीय परिणाम					
(₹ लाखों में)					
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिक
		30.06.2024 (अनअंकेक्षित)	31.03.2024 (अंकेक्षित)	30.06.2023 (अनअंकेक्षित)	
1	कुल आय	962.59	1,036.82	6,457.16	12,140.79
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(2,760.64)	(4,702.00)	749.36	(8,601.29)
3	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) कर से पहले (विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(2,760.64)	(4,702.00)	749.36	(8,601.29)
4	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) कर के बाद (विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	(3,067.72)	(5,173.39)	711.25	(7,704.49)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	(3,053.52)	(5,167.97)	712.68	(7,707.25)
6	शुद्धता इक्विटी शेयर कैपीटल (सम्मूल्य ₹00 2/- प्रति शेयर)	5,901.93	5,901.93	5,901.93	5,901.93
7	अन्य इक्विटी	-	-	-	121,555.38
8	प्रति शेयर आय (₹00 2/- प्रति शेयर) (वार्शिक नहीं)				
i)	मूल ईपीएस (₹00)	(1.04)	(1.75)	0.24	(2.61)
ii)	तरल ईपीएस (₹00)	(1.04)	(1.75)	0.24	(2.61)

एकीकृत वित्तीय की मुख्य जानकारी नीचे दी गई है:					
(₹ लाखों में)					
क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वार्षिक
		30.06.2024 (अनअंकेक्षित)	31.03.2024 (अंकेक्षित)	30.06.2023 (अनअंकेक्षित)	
1	कुल आय	3,129.68	3,600.07	5,448.81	17,717.69
2	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) (कर, विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों से पहले)	822.42	142.92	147.76	1,686.14
3	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) कर से पहले (विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	822.42	142.92	147.76	1,686.14
4	अवधि के लिए नेट लाभ/(हानि) कर के बाद (विशेष एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	611.34	71.78	109.64	1,365.30
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए शामिल लाभ/(हानि) (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	625.55	77.40	111.08	1,362.71
6	शुद्धता इक्विटी शेयर कैपीटल (सम्मूल्य ₹00 2/- प्रति शेयर)	5,901.93	5,901.93	5,901.93	5,901.93
7	अन्य इक्विटी	-	-	-	130,716.99
8	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	-	-	-	-
9	नेट वर्क	137,244.46	136,618.92	135,367.27	136,618.92
10	शुद्धता ऋण पूंजी/बकाया ऋण	0.04	0.04	0.04	0.04
11	बकाया प्रतिदेय बरीयता शेयर	-	-	-	-
12	ऋण इक्विटी अनुपात (समय में)	1.07	1.06	1.01	1.06
13	प्रति शेयर आय (₹00 2/- प्रति शेयर) (वार्शिक नहीं)				
i)	मूल ईपीएस (₹00)	0.21	0.02	0.04	0.46
ii)	तरल ईपीएस (₹00)	0.21	0.02	0.04	0.46
14	पूँजी रिटेंशन रिजर्व	-	-	-	-
15	डिविडेंड रिटेंशन रिजर्व	-	-	-	-
16	ऋण सेवा कवरज अनुपात (समय में)	1.63	1.15	0.23	0.05
17	व्याज सेवा कवरज अनुपात (समय में)	1.67	1.14	1.07	1.29

टीएआरसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से उनके लिए
हस्ताक्षर/—
अमर सरीन
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
DIN : 00015937

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 12, 2024

अंतिमलाइन ई-नीलामी विक्री के नियम और शर्तें:

- संपत्ति 'जैसा है जहाँ है', 'जो है वही है', 'जो कुछ भी है वही है' और 'आश्रय रहित' आधार पर बेची जा रही है। इस प्रकार विक्री किसी भी प्रकार की गारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
- संपत्ति/परिपत्र/संपत्ति का विवरण (जैसे ई-नीलामी विक्री नोटिस में निहित सौम और मात्र) प्रतिभूति ऋणदाता को सर्वोच्च जानकारी के अनुसार बताया गया है और प्रतिभूति ऋणदाता किसी भी मुद्दे, गलत बयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विवरण और आश्रय भिन्न हो सकते हैं।
- प्रतिभूति ऋणदाता द्वारा जारी ई-नीलामी विक्री नोटिस आम जनता को सलाह देती है कि वे प्रतिभूति ऋणदाता के अनुरोध पर संपत्ति का निरीक्षण करें और संपत्